



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

9 दिसम्बर 2011

संख्या 49

1. भारतीय रिज़र्व बैंक — देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	3 दिसम्बर	25 नवम्बर	2 दिसम्बर #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	8,91,068	10,02,283	10,01,377	-906	1,10,309
संचलन में नोट	8,91,054	10,02,267	10,01,364	-903	1,10,310
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	16	13	-3	-1
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	18,605	100	100	—	-18,505
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	41	42	42	—	1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,03,307	3,71,379	3,48,035	-23,345	44,728
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,510	3,827	4,222	395	712
अन्य बैंक	14,753	17,038	16,874	-164	2,121
अन्य	12,983	10,741	12,037	1,296	-947
अन्य देयताएं	3,47,849	5,74,773	5,77,277	2,504	2,29,427
कुल देयताएं / आस्तियां	15,92,117	19,80,184	19,59,965	-20,219	3,67,847
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,06,075	14,12,538	13,97,088	-15,450	1,91,013
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	1,01,857	1,31,442	1,46,289	14,847	44,432
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	2,74,581	4,01,866	3,69,804	-32,062	95,223
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	21,325	36,137	14,812	36,137
राज्य सरकारें	—	91	1,231	1,141	1,231
नाबाई	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,387	5,832	2,273	-3,559	-1,113
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	—	—	—	-30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	366	736	437	-299	71
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	1,320	1,320	1,320	—	—
अन्य आस्तियां	4,502	5,034	5,386	352	884

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	2 दिसम्बर 2011 को		निमलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
कुल भंडार	15,77,944	306,844	-1,056	2,479	2,16,930	2,026	2,45,590	9,510	2,39,422	10,454
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	13,95,137	271,692	-15,418	1,315*	1,70,254	-2,638	1,95,060	3,878	1,90,190	4,460
(ख) स्वर्ण \$	1,46,289	28,041	14,847	1,145	43,717	5,069	45,603	5,571	44,432	5,917
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	23,114	4,501	-307	12	2,713	-68	361	-577	270	-565
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,404	2,610	-178	7	246	-337	4,566	638	4,530	642

+ आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹1,951 करोड़ / 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।

* अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।

@ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

\$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	25 नव. 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		माह में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	68,625	-1,263	-2,146	-5,116	12,754	5,841
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	22,171	-4,895	-10,879	-7,553	2,650	692
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	10,047	75	1,073	2,923	1,489	2,996
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	56,58,288	19,568	3,01,550	4,50,319	5,93,715	8,63,912
		(0.3)	(6.7)	(8.6)	(14.1)	(18.0)
मांग	5,72,001	-9,275	-51,107	-69,704	63,034	-22,502
मीयादी	50,86,287	28,843	3,52,657	5,20,023	5,30,681	8,86,414
उधार ⁽³⁾	1,78,974	-13,737	31,589	47,633	7,717	43,107
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,53,531	-1,889	-5,475	11,726	8,247	29,585
रिजर्व बैंक से उधार	5,832	2,087	4,540	801	4,582	1,251
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	4,09,372	18,192	35,007	59,863	85,597	67,398
पास में नकदी	37,993	-2,317	5,519	7,647	3,329	6,896
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,71,379	20,509	29,488	52,216	82,268	60,502
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	55,848	-3,200	-17,590	-289	868	11,017
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11,942	-5,747	-6,187	-4,664	1,073	461
बैंकों को अग्रिम	7,075	1,101	-5,702	-5,494	2,196	2,885
अन्य आस्तियां	69,873	-1,411	7,795	800	27,661	17,615
निवेश⁽⁵⁾	17,09,264	4,551	81,880	2,07,645	83,931	2,42,632
		(0.3)	(5.9)	(13.8)	(6.1)	(16.5)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,05,167	4,474	83,396	2,08,019	86,350	2,43,376
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,098	77	-1,516	-373	-2,419	-744
बैंक ऋण	41,95,530	37,123	3,23,592	2,53,448	6,59,239	6,27,150
		(0.9)	(10.0)	(6.4)	(22.7)	(17.6)
खाद्य ऋण	78,499	5,822	10,635	14,216	16,770	19,374
खाद्येतर ऋण	41,17,031	31,302	3,12,957	2,39,232	6,42,469	6,07,776
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	40,43,019	34,870	3,17,748	2,49,013	6,31,281	6,03,113
देशी बिल - खरीदे गए	13,937	654	-1,142	493	740	3,065
भुनाए गए ⁽⁶⁾	81,335	779	5,860	1,468	20,641	13,256
विदेशी बिल - खरीदे गए	18,826	405	1,253	243	661	1,441
भुनाए गए	38,414	416	-128	2,230	5,917	6,275
नकद-जमा अनुपात	7.23					
निवेश-जमा अनुपात	30.21					
ऋण-जमा अनुपात	74.15					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 1. 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

2. जब माह का अंतिम शुक्रवार रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए एकांतर शुक्रवार नहीं है तब यथा अपेक्षित बैंकों द्वारा प्रस्तुत विशेष विवरणियों पर आधारित।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	26 नवम्बर	21 अक्टूबर	28 अक्टूबर	4 नवम्बर	11 नवम्बर	18 नवम्बर	25 नवम्बर
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.50/8.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.00/8.00	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50 / 9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	6.86	8.26	8.40	8.47	8.60	8.57	8.67

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बीचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2011-2012			2010-2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2)-(1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5)-(4)
	2011			2010		
	25 मार्च	18 नवम्बर		26 मार्च	19 नवम्बर	
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	39,42,083	41,89,044	2,46,962 (6.3)	32,44,788	35,59,896	3,15,108 (9.7)
क. खाद्य ऋण	64,283	78,713	14,430	48,489	58,008	9,518
ख. खाद्येतर ऋण	38,77,800	41,10,331	2,32,531 (6.0)	31,96,299	35,01,889	3,05,590 (9.6)
2. निवेश	1,47,601	1,70,648	23,047	1,18,071	1,52,741	34,670
क. वाणिज्यिक पत्र	12,309	21,833	9,524	25,188	40,741	15,553
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	41,316	38,298	-3,018	30,106	34,902	4,796
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8,965	8,059	-905	4,625	7,721	3,097
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	30,238	-2,113	25,481	27,181	1,699
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	93,975	1,10,517	16,542	62,777	77,098	14,321
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,946	35,812	7,866	22,710	23,820	1,111
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	74,705	8,676	40,067	53,278	13,211
3. कुल (1ख+2)	40,25,401	42,80,979	2,55,578 (6.3)	33,14,370	36,54,629	3,40,260 (10.3)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	47,603	65,375	17,772	52,887	45,803	-7,084
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	31,296	32,518	1,222	32,597	28,515	-4,083
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	45,615	40,474	-5,141	30,902	29,481	-1,420

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें – हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+) / हास (-) (प्रतिशत)				
	28 नव.	29 नव.	30 नव.	1 दिस.	2 दिस.	28 नव.	29 नव.	30 नव.	1 दिस.	2 दिस.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	51.9830	51.9308	52.1650	51.6520	51.3523	—	-11.79	-11.74	-11.52	-11.65
यूरो	69.1243	69.3658	69.4735	69.5086	69.1380	—	-12.55	-13.12	-14.36	-13.91
फेडाई की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	51.9750	51.9100	52.1750	51.6400	51.3750	—	-11.76	-11.78	-11.50	-11.72
डॉलर { बिक्री	51.9850	51.9200	52.1850	51.6500	51.3850	—	-11.76	-11.78	-11.50	-11.72
पौंड { खरीद	80.6300	80.6225	81.2675	81.0275	80.5550	—	-11.30	-11.92	-12.12	-12.05
स्टर्लिंग { बिक्री	80.6700	80.6525	81.3050	81.0600	80.5875	—	-11.29	-11.91	-12.11	-12.05
यूरो { खरीद	69.1625	69.3825	69.4400	69.5025	69.1825	—	-12.60	-13.08	-14.31	-13.98
{ बिक्री	69.1975	69.4125	69.4625	69.5200	69.2100	—	-12.58	-13.07	-14.30	-13.98
100 येन { खरीद	66.8925	66.5950	66.9250	66.4525	66.0350	—	-18.21	-18.20	-17.61	-18.36
{ बिक्री	66.9725	66.6150	66.9650	66.5075	66.0825	—	-18.17	-18.19	-17.62	-18.37
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (वार्षिक प्रतिशत)										
1 - माह	6.69	7.16	6.90	6.74	7.01					
3 - माह	4.92	5.01	4.98	5.27	5.30					
6 - माह	4.04	4.12	4.14	4.57	4.77					

— पिछले वर्ष के तदनुसंगी दिन बाजार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		परवर्द्ध		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	18 नव. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	70,13,674	3,113	—	4,87,867	8.7	5,14,125	7.9	8,60,005	16.4	9,23,075	15.2
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,77,384	9,333	1.0	1,04,274	13.6	63,187	6.9	1,48,151	20.5	1,05,617	12.1
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,38,474	-5,583	-0.9	-7,226	-1.0	-79,185	-11.0	1,29,773	22.3	-72,269	-10.2
(iii) बैंकों के पास मीमादी जमा	48,63,979	53,96,693	-452	—	3,91,099	9.5	5,32,714	11.0	5,83,303	14.9	8,92,164	19.8
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	1,123	-186	-14.2	-279	-7.3	-2,590	-69.8	-1,222	-25.6	-2,437	-68.5
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	22,12,915	20,071	0.9	1,51,676	9.1	2,30,144	11.6	3,19,755	21.3	3,92,053	21.5
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	4,16,903	36,725		47,928		20,348		1,87,185		1,57,390	
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	17,96,012	-16,654	-0.9	1,03,748	7.1	2,09,796	13.2	1,32,570	9.3	2,34,663	15.0
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	42,35,406	44,86,142	9,444	0.2	3,46,568	9.9	2,50,735	5.9	7,00,317	22.3	6,48,164	16.9
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,908	586	—	244	—	-256	—	-3,824	—	336	—
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	44,84,233	8,859	0.2	3,46,324	9.9	2,50,991	5.9	7,04,141	22.5	6,47,828	16.9
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	15,84,738	32,960	2.1	97,851	7.6	1,91,411	13.7	27,479	2.0	2,05,419	14.9
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,522	14.2	1,058	8.6
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	11,24,680	12,83,433	59,363	4.8	1,09,212	12.8	1,58,752	14.1	1,89,069	24.5	3,23,619	33.7
जिनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	3,68,274	5,77,475	46,691	8.8	60,247	20.0	2,09,201	56.8	-26,655	-6.9	2,15,613	59.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	2 दिस. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	13,86,419	-22,721	-1.6	73,474	6.4	9,537	0.7	2,23,917	22.3	1,57,258	12.8
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	10,14,675	-903	-0.1	1,03,759	13.0	65,016	6.8	1,44,958	19.1	1,11,368	12.3
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	3,69,131	-23,113	-5.9	-30,729	-8.7	-54,378	-12.8	78,368	32.2	47,561	14.8
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,713	2,612	1,296	98.4	444	11.6	-1,101	-29.6	591	16.0	-1,671	-39.0
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	4,07,242	-15,942		44,432		10,688		1,83,896		1,51,225	
	3,94,035	4,06,053	-17,082		44,478		12,019		1,83,896		1,49,994	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से : बैंकों को (नाबार्ड सहित)	7,324	4,010	-3,858		2,585		-3,313		88		-1,072	
	5,159	2,273	-3,597		2,288		-2,886		3,457		-1,183	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	15,43,359	-603	—	75,966	6.2	2,14,806	16.2	8,545	0.7	2,35,445	18.0
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,426	13.2	1,058	8.6
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	3,68,274	5,81,505	2,318	0.4	50,493	16.7	2,13,230	57.9	-29,962	-7.8	2,29,397	65.1

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) / कमी(-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 नवम्बर 2011	1	36	89,995	36	89,995	8.50	2	25	2	25	7.50	89,970	—	-89,970
29 नवम्बर 2011	1	40	93,395	40	93,395	8.50	2	20	2	20	7.50	93,375	—	-93,375
30 नवम्बर 2011	1	35	77,850	35	77,850	8.50	2	305	2	305	7.50	77,545	—	-77,545
1 दिसम्बर 2011	1	35	82,845	35	82,845	8.50	1	5	1	5	7.50	82,840	—	-82,840
2 दिसम्बर 2011	3	37	68,825	37	68,825	8.50	19	5,635	19	5,635	7.50	63,190	—	-63,190

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	4,000	78	14,105	—	35	4,000	—	—	4,000	98.26	7.1443	69,845
6 जुलाई	8 जुलाई	7,000	94	27,621	250	29	7,000	250	—	7,250	98.00	8.1857	1,21,860
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4,000	69	14,755	1,500	41	4,000	1,500	—	5,500	97.94	8.4364	1,14,719
30 नव.	2 दिस.	4,000	71	11,176	854	34	4,000	854	—	4,854	97.85	8.8131	85,973
182-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3,000	75	7,178	—	44	3,000	—	—	3,000	96.04	8.2692	34,251
12 अक्तू.	14 अक्तू.	4,000	56	7,293	—	41	4,000	—	—	4,000	95.90	8.6177	42,100
23 नव.	25 नव.	4,000	86	12,367	1	26	4,000	1	—	4,001	95.79	8.8361	43,351
364-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3,000	107	13,141	—	20	3,000	—	—	3,000	92.41	8.2360	53,308
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4,000	93	10,645	—	43	4,000	—	—	4,000	92.18	8.5185	65,161
30 नव.	2 दिस.	4,000	132	23,682	—	2	4,000	—	—	4,000	92.25	8.4477	74,369

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19 नव.	20 नव.	21 नव.	22 नव.	23 नव.	24 नव.	25 नव.	26 नव.	27 नव.	28 नव.	29 नव.	30 नव.	1 दिस.	2 दिस.
2 दिसम्बर 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,63,351	3,63,351	3,68,939	3,72,909	3,76,010	3,70,881	3,71,729	3,74,345	3,74,345	3,52,496	3,57,668	3,46,565	3,59,367	3,48,402

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3	4	
8 अक्टूबर 2010		3,44,158		38,285	6.36-8.26
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019	7.18-9.82
8 अप्रैल 2011		4,44,525		61,292	8.00-11.70
15 जुलाई 2011		4,05,973		28,431	8.20-10.10
7 अक्टूबर 2011		3,87,313		41,694	8.80-9.85
21 अक्टूबर 2011		3,85,936		11,635	9.00-9.90

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50-10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60-11.95
15 अप्रैल 2011	1,05,518	30,840	7.15-12.30
15 जुलाई 2011	1,28,347	29,818	8.10-13.25
30 सितम्बर 2011	1,44,621	37,926	7.83-14.50
15 अक्टूबर 2011	1,66,462	29,243	8.75-13.50

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		20 नवम्बर	24 सितम्बर *	19 नवम्बर #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	186.0	202.9	200.4	-0.7	-2.2	6.4	7.7
(i) फल और सब्जियां	3.84	174.3	196.9	185.8	-5.3	-9.4	11.3	6.6
ईंधन और विद्युत	14.91	148.7	169.4	171.8	0.2	1.2	8.8	15.5
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* : अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	2 दिसम्बर	28 नवम्बर	29 नवम्बर	30 नवम्बर	1 दिसम्बर	2 दिसम्बर
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	19992.70	16167.13	16008.34	16123.46	16483.45	16846.83
एसएंडपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	6011.70	4851.30	4805.10	4832.05	4936.85	5050.15

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	8,972	12,550	10,022	8,613	8,551	9,495	6,996
ख) दिए गए ऋण	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003	10,613	7,848
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	495	435	457	972	452	1,118	852
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003	10,613	7,848
ख) दिए गए ऋण	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003	10,613	7,848

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	54,170	1,10,797	53,364	1,31,544	85,526	1,50,152
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	456	603	1,740	1,631	2,163	1,285
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	4,966	7,536	4,025	3,753	2,805	8,241
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,452	1,815	1,060	2,940	2,656	4,759
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	988	2,998	971	4,748	904	11,027
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	536	99	60	133	11,073	5,928

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
14 नवम्बर 2011	2,537	1,236	737	472	268	324	8,398	6,101	386	3,426	1,523	94
15 नवम्बर 2011	2,519	1,500	637	234	356	371	8,358	8,107	673	3,590	1,215	92
16 नवम्बर 2011	2,727	1,620	860	182	478	465	7,891	7,946	642	3,898	1,567	119
17 नवम्बर 2011	1,849	1,283	482	263	286	197	7,296	6,837	710	3,353	1,194	229
18 नवम्बर 2011	2,397	1,721	883	185	244	209	8,838	8,541	891	3,016	1,539	89
बिक्री												
14 नवम्बर 2011	3,063	1,375	614	447	274	282	7,618	7,524	574	3,398	1,642	65
15 नवम्बर 2011	2,406	1,871	660	225	349	401	7,537	8,899	1,098	3,584	1,311	70
16 नवम्बर 2011	2,167	2,048	823	180	411	510	7,285	8,217	974	3,897	1,592	97
17 नवम्बर 2011	2,163	1,377	597	280	360	209	6,667	6,066	1,012	3,348	1,112	214
18 नवम्बर 2011	2,724	2,430	777	175	362	160	8,325	9,333	1,042	3,022	1,481	84

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	294.62	1,029.07	137.78	599.42	1,223.53	1157.43

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	2 दिसम्बर 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल					सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)	कुल (1+2+3+4)		
	1	2	3	4	5	6	7
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	27,019	16,145	21,717	64,881	-1,247	21,463
राज्य सरकारें	84,846	19,418	400	419	1,05,083	3,851	-6,406
अन्य	2,340	39,536	26,807	52,233	1,20,916	1,351	37,518

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (2 दिसम्बर 2011 तक)	2010-2011 (3 दिसम्बर 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (2 दिसम्बर 2011 तक)	2010-2011 (3 दिसम्बर 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	3,41,000	3,61,000	4,37,000	2,67,419	2,75,813	3,25,414
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन* : बिक्री	5,872	5,543	11,575			
खरीद	21,113	13,887	78,799			

* भारिबैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	25 नवम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह			2 दिसम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	—	—	—	30	8.9104	8.9104
2012-13	560	8.7784	8.8759	1,168	8.6802	8.9105
2013-14	—	—	—	—	—	—
2014-15	140	8.6000	8.7221	—	—	—
2015-16	227	8.6429	8.7500	431	8.6216	8.7500
2016-17	63	8.7539	8.8029	286	8.6213	8.8051
2017-18	41	8.7769	8.7999	257	8.6699	8.8367
2018-19	7,241	8.7842	8.9287	7,360	8.6258	8.8311
2019-20	—	—	—	—	—	—
2020-21	205	8.9103	9.1318	1,055	9.3752	10.0166
2021 से आगे	34,288	8.7705	9.1723	64,487	8.6818	9.2794
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,082	9.0993	9.2406	643	9.0900	9.2780
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	334	8.7400	8.8686	1,103	8.6506	8.9498
ख) 15 - 91 दिन	1,318	8.6801	8.8696	3,923	8.6005	8.9501
ग) 92 - 182 दिन	1,079	8.7000	8.8361	2,797	8.4999	8.8799
घ) 183 - 364 दिन	450	8.4967	8.7000	4,190	8.2500	8.7500
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	814			74		
खरीद	10,259			5,854 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	39,015	7.50 (1)	9.40 (15)	49,990	5.50 (1)	9.40 (15)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	319	8.30 (1)	8.75 (3)	196	8.40 (1)	8.55 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	20,275	8.45 (1)	8.90 (3)	19,490	5.00 (1)	8.60 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	8,494	8.45 (1)	8.72 (3)	15,010	8.00 (1)	8.65 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	10,933	8.45 (1)	8.75 (3)	11,912	5.00 (1)	8.60 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	6,06,255	8.50	8.50	4,12,910	8.50	8.50
: रिवर्स रिपो !	295	7.50	7.50	5,990	7.50	7.50

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कंपनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।